

GAGNEJA PROPERTIES
CONTACT FOR SALE, PURCHASE RENT & LEASE

- Shops
- Houses
- Industrial Property
- Commercial Property
- Agriculture Land

REAL ESTATE WITHOUT THE HASSLE

MO.-8630672525, 8279444462

ADD- SRA F69, Shop No.4, Adarsh Colony, Rudrapur

बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट सरख्त, अब नहीं चलेगी मनमानी

नई दिल्ली (उद ब्यूरो)। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि आरोपी या दोषी का घर नहीं गिराया जा सकता है, यह किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं है। मनमाना रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी मनमाने तरीके से काम नहीं कर सकते। बगैर सुनवाई आरोपी को दोषी नहीं करार नहीं दिया जा सकता है। जस्टिस गर्व ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अपना घर पाने की चाहत हर दिल में होती है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर

एक्शन पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर बुधवार को कहा



कि उसने संविधान में दिए गए उन अधिकारों को ध्यान में रखा है, जो राज्य की मनमानी कार्रवाई से लोगों को सुरक्षा प्रदान

करते हैं। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कानून का शासन यह सुनिश्चित करता है कि लोगों को यह पता हो कि उनकी संपत्ति को बिना किसी उचित कारण के नहीं छीना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक घर केवल एक संपत्ति नहीं है, बल्कि सुरक्षा के लिए परिवार की सामूहिक उम्मीद का प्रतीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुलडोजर एक्शन सामूहिक दंड देने के जैसा है, जिसकी संविधान में अनुमति नहीं है। अगर कार्यपालिका मनमाने तरीके से किसी नागरिक के घर को इस आधार (शेष पृष्ठ सात पर)

सीएम धामी ने भगवान बदरी विशाल का लिया आशीर्वाद

रुद्रप्रयाग (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बदरीनाथ धाम पहुंचकर मंदिर में पूजा-अर्चना की और भगवान बदरीविशाल का आशीर्वाद लिया। सीएम ने धाम में चल रहे विभिन्न विकास कार्यों का निरीक्षण भी किया और तीर्थ



पुरोहितों और यात्रियों से मुलाकात कर फीड बैक भी लिया। भू-बैकूंट श्री बदरीनाथ धाम पहुंचे सीएम धामी ने विधि-विधान से प्रभु बदरी नारायण की पूजा-अर्चना की। इस अवसर पर प्रभु से समस्त प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि एवं राज्य की उन्नति के लिए प्रार्थना की। इस दौरान उन्होंने मंदिर परिसर (शेष पृष्ठ सात पर)

कार से बाइक की भिड़ंत में यूट्यूबर की दर्दनाक मौत

ऋषिकेश (उद संवाददाता)। रामा पैलेस के निकट एक सड़क हादसे में एक यूट्यूबर की दर्दनाक मौत हो गई। जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे उपचार के लिए एम्स में भर्ती कराया गया है। ऋषिकेश को तवाली पुलिस के मुताबिक देर रात यूट्यूबर यश प्रजापति निवासी कैनाल रोड श्यामपुर अपने दोस्त ऋषिकेशवाहा के साथ बाइक

में बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक चला रहे यश प्रजापति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। जबकि बाइक पर



वजह से ऋषिकेशवाहा को एम्स रेफर कर दिया गया। फिलहाल एम्स में ऋषिकेशवाहा की हालत स्थिर बनी हुई है।

प्रत्यक्ष दृश्यों ने बताया कि बाइक की रफ्तार काफी तेज थी। जिस वजह से यह सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने मृतक का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना की जांच पुलिस ने शुरू कर दी है। मृतक यश प्रजापति बाइक राइडर था। जो अपनी बाइक से संबंधित वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करके लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता था।

गुटबाजी के चलते दुबारा हुआ अंडरपास का शिलान्यास

छह माह में बनकर तैयार हो जायेगा अंडर पास: भट्ट

रुद्रपुर। ओमेक्स सोसायटी के पास अंडरपास के निर्माण का एक बार फिर भूमि पूजन और फिर शिलान्यास किया गया। इससे पहले इसी अंडरपास का भूमि पूजन पूर्व मेयर रामपाल सिंह ने एक छोटी बच्ची से नारियल फोड़कर करवाया था। आज दुबारा इसी अंडर पास का शिलान्यास शहर में चर्चा का विषय बना रहा। बुधवार को क्षेत्रीय सांसद अजय भट्ट एवं विधायक शिव अरोरा ने संयुक्त रूप से पूजा अर्चना के बीच रेलवे अंडर पास के निर्माण कार्य का भूमि भूजन और उदघाटन किया। इस अवसर पर सांसद भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी



के आशीर्वाद से केन्द्रीय रेल मंत्री द्वारा राज्य के लोगों को कई तोहफे दिये जा रहे हैं। इनमें एक यहां का अंडर रेलवे पास भी है। उन्होंने कहा कि आगामी करीब 6 माह में अंडर पास बनकर तैयार हो जायेगा। जिससे स्थानीय लोगों को कई किलोमीटर लम्बा सफर तय नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने कहा (शेष पृष्ठ सात पर)

संदिग्ध हालातों में विवाहिता की मौत, ससुरालियों पर हत्या का आरोप

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। संदिग्ध परिस्थितियों में एक विवाहिता की मौत हो गयी। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोचरी भेज दिया। मामले में मृतक के मायके वालों ने पति समेत अन्य ससुरालियों पर हत्या का आरोप लगाया है। गुलरभोज निवासी सुमन कौर पुत्री स्व. अमरजीत सिंह का विवाह चार वर्ष पूर्व स्व. निवासी जसवीर सिंह के साथ हुआ था। गत 20 अक्टूबर को ही उसने एक

पीछे बैठे ऋषिकेशवाहा को गंभीर हालत में लोगों ने सरकारी अस्पताल उपचार के लिए भेजा। जहां हालत गंभीर होने की



को जन्म देने के बाद सुमन कौर को ईलाज के नाम पर बिना वजह ससुराल वाले इधर उधर ले जाने लगे। उसे कई दिनों तक बिना बात के मुगदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती करा दिया, वहां जब सुमन से मुलाकात की तो उसका कहना था कि वह बिल्कुल ठीक लेकिन इसके

संदिग्ध हालातों में किशोर ने फांसी लगाकर दी जान

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। संदिग्ध हालातों में एक किशोर ने घर पर फांसी लगाकर जान दे दी। सूचना पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मोचरी भेज दिया। उधर मृतक के पिता ने पुलिस से पोस्टमार्टम ना कराने का अनुरोध किया है। कृष्णा कालोनी ट्राजिट कैम्प निवासी हर प्रसाद पुत्र प्रेमराज सिडकुल की वोल्टास फैक्ट्री में काम करता है। उसका 13 वर्षीय पुत्र अजय कुमार रुद्रपुर बाजार में किसी दुकान पर काम सीखता था। हर प्रसाद ने बताया कि रोजाना की तरह वह मंगलवार को सुबह साढ़े सात (शेष पृष्ठ सात पर)

रेल पुलिया के पास शव मिलने से सनसनी

किच्छा। थाना पुलभट्टा क्षेत्र में रेल पुलिया के पास अज्ञात व्यक्ति का शव पाये जाने से सनसनी फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। आशंका व्यक्त की जा रही है कि मृतक की रेल से टकराकर मौत हुई है। जानकारी के अनुसार गत रात्रि करीब 10 बजे थाना पुलिस को यह सूचना मिली कि पुलभट्टा थाना क्षेत्र में रेलवे पुलिया के पास एक अज्ञात व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे और उन्होंने घटना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया और वहां खड़े लोगों से मृतक की शिनाख्त कराने की कोशिश की परंतु कोई भी व्यक्ति उसे नहीं पहचान पाया। जिस पर पुलिस ने शव अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। शव पर चोटों के कई निशान होने के कारण आशंका व्यक्त की जा रही है कि अज्ञात मृतक की रेल से टकराकर मौत हुई है। एसआई धीरज वर्मा ने बताया कि मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष है। आस पास के चौकी थाना क्षेत्रों में मृतक के सन्दर्भ में जानकारी दे दी गई है।

बावजूद उसे बिना वजह अनाप शनाप दवाईयां दी जा रही है। मृतका की बहन के मुताबिक मुगदाबाद से सुमन कौर को ससुराल वाले जैसे तैसे घर ले आये। कल शाम को उन्हें जानकारी मिली कि सुमन की तबियत बिगड़ (शेष पृष्ठ सात पर)

‘सांगठनिक कमजोरी’ कांग्रेस को कहीं ‘पड़न जाए भारी’

भाजपा के चाक चौबंद संगठन के सामने कांग्रेस की सांगठनिक तैयारी लचर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के पास तक नहीं है अपनी कार्यकारिणी, बिना सेना वाले कैप्टन की अगुवाई में कांग्रेस कैसे जीत पाएगी केदारनाथ की लड़ाई?



भोग/रसमगड़ी
बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरी धर्मपत्नी श्रीमति राज रानी का स्वर्गवास 6 नवम्बर 2024 को हो गया है, जिसकी आत्मिक शांति के लिए रखे गये भोग एवं रसमगड़ी दिनांक 14.11.2024 दिन बुधवार को प्रातः 11 से 12 बजे तक श्री ओम बापू मन्दिर, गदरपुर में

दुखित परिवार

स्व0 अशोक कुमार-अनीता रानी (देवर-देवरानी) बाबू राम गाबा (पति)
स्व0 गुलशन कुमार-संगीता रानी (देवर-देवरानी) मनोज कुमार-मानसी (पुत्र-पुत्रवधु)
राजकरनी लुधियाना- बाबू राम कालड़ा (बहन-बहनोई) गोल्डी-किरन (पुत्र-पुत्रवधु)
दर्शना रानी-स्व0 राकेश कोचर- (बहन-बहनोई) नितिन-कीर्ति (पुत्र-पुत्रवधु)
सरोज रानी-सतीश तनेजा (बहन-बहनोई) संजीव आहुजा-अलका (दामाद-पुत्री)
एवं समस्त गाबा, हंस, कोचर, कालड़ा, तनेजा व आहुजा परिवार
निवास-पंजाबी कालोनी, गाबा कम्प्लेक्स नरानी, गदरपुर मो-9837780067

रुद्रप्रयाग। केदारनाथ उपचुनाव में कांग्रेस अपने क्षेत्रीय क्षेत्रों के सहारे भले ही भाजपा की तगड़ी घेराबंदी करने की कोशिश में जुटी हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल से लेकर प्रदेश स्तर तक के चाक चौबंद संगठन के सामने कांग्रेस की सांगठनिक तैयारी बेहद लचर नजर आ रही है। गौरतलब है कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस के चुनाव प्रचार की अगुवाई कर रहे कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करन माहारा के पास अपनी खुद की कार्यकारिणी तक नहीं है। ऐसे में कांग्रेस बिना सेना वाले कैप्टन की अगुवाई में केदारनाथ का किला कैसे फतह कर



पाएगी? यह एक यक्ष प्रश्न है। याद दिलाना होगा कि उत्तराखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर करन माहारा अप्रैल 2022 में नियुक्त किए गए थे और

टीम नहीं बनाने दिया गया। वैसे तो प्रदेश संगठन के स्तर पर पार्टी हाईकमान को कार्यकारिणी गठन को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन कतिपय कारण के चलते हाईकमान ने उत्तराखंड कांग्रेस संगठन को कभी इसकी मंजूरी दी ही नहीं। इतना ही नहीं, केदारनाथ में कांग्रेस का जिला स्तरीय संगठन भी व्यवस्थित और एकजुट नहीं है। जिला स्तर पर पुराने नेता महत्वपूर्ण पदों पर काबिज हैं, जिनका नए और छोटे कार्यकर्ताओं से तालमेल बेहतर नहीं है। उधर कांग्रेस की तुलना में भाजपा के पास समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज तो है ही, साथ ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी बूथ लेवल से लेकर (शेष पृष्ठ सात पर)

चारों धामों के नाम से नहीं बनेगा कोई और मंदिर: धामी



रुद्रप्रयाग (उद संवाददाता)। केदारनाथ उपचुनाव को लेकर चुनाव प्रचार में राजनीतिक दलों के नेताओं ने मतदाताओं को रिझाने का प्रयास तेज कर दिया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी चुनाव में प्रचार में उतर गये हैं। मंगलवार को सीएम धामी केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में रुद्रप्रयाग पहुंचे। इस दौरान उनका धाकड़ अंदाज देखने को मिला। वह बाइक रैली में शामिल हुए और खुद बाइक चलाकर चुनावी रैली में पहुंचे। अगस्त्यमुनि (रुद्रप्रयाग) पहुंचने पर केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी श्रीमती आशा नौटियाल, जनप्रतिनिधि कार्यकर्ताओं, युवाओं ने भव्य स्वागत किया। सीएम के इस अंदाज ने कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा। मंगलवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में अगस्त्यमुनि पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। वहीं

बाइक चलाकर चुनावी रैली में पहुंचे धाकड़ धामी, कांग्रेस पर किया पलटवार, वर्ष 2013 की आपदा में कांग्रेस सरकार ने की लापरवाही

दिवंगत विधायक शैलारानी रावत की पुत्री ऐश्वर्या रावत ने भी भाजपा प्रत्याशी न में विपक्षी दल कांग्रेस के आरोपों को लेकर बड़ा बयान दिया है। वहीं विस करने का आरोप लगाया। सीएम के अनुसार कांग्रेस के कार्यकाल में मुंबई में हमने कानून बनाया है जिसके अंतर्गत चारों धामों के नाम से कोई और मंदिर नहीं बनाया जा सकेगा। सीएम ने रुद्रप्रयाग में आयोजित अनुसूचित जाति स्वाभिमान सम्मेलन में सम्मिलित होकर बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों से केदारनाथ उपचुनाव में भाजपा को प्रचंड बहुमत से विजयी बनाने की अपील की। सीएम धामी ने कहा कि जब केदारनाथ में वर्ष 2013 में आपदा का कारण ही हजारों श्रद्धालुओं और स्थानीय जनता को जान गंवानी पड़ी। कांग्रेस की सनातनविरोधी सोच और तुष्टिकरण को पोषित करने वाली मानसिकता से केदारनाथ की जनता भली भांति परिचित है, इस उपचुनाव में देवतुल्य जनता कांग्रेस का सूपड़ा

आशा नौटियाल के समर्थन में प्रचार किया। रुद्रप्रयाग में आयोजित चुनावी जनसभा में सीएम धामी ने अपने संबोध उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान दिल्ली में मंदिर के शिलान्यास को लेकर कांग्रेस नेताओं के बयान पर दुष्प्रचार

बदरीनाथ मंदिर का निर्माण हुआ था जिसके उद्घाटन में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी भी उपस्थित थे और

साफ करने का कार्य करेगी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार ने समाज के प्रत्येक वर्ग के उत्थान हेतु समर्पित होकर कार्य किया है। इसी का परिणाम है कि क्षेत्र के सर्वांगीण विकास एवं धर्म व संस्कृति की रक्षा हेतु आज केदारनाथ विधानसभा का जन-जन भाजपा को पुनः जिताने हेतु उत्साहित है। केदारनाथ उपचुनाव नजदीक है। 20 नवंबर को मतदान होना है, जिसके लिए पार्टी ने पूरी ताकत झोंके दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपचुनाव में पूरी तरह से खुद को झोंके हुए हैं। इस बीच वह आज भाजपा प्रत्याशी आशा नौटियाल के समर्थन में पहुंचे। वहीं केदारनाथ उपचुनाव के रण में भाजपा के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए कांग्रेस के क्षेत्रीय दिग्गजों ने ताकत झोंके दी है। पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल समेत पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के प्रचार के लिए मोर्चे पर डटे हैं।

केदारनाथ उपचुनाव के लिए नोडल अधिकारी एडीजी एपी अंशुमान ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश

देहरादून/रुद्रप्रयाग। केदारनाथ उपचुनाव के लिए जिले को 27 सेक्टर और दो जोन में बांटा गया है। सुरक्षा और चेकिंग के लिए वहां पर आठ एफएसटी और 10 एसएसटी का गठन किया गया है। यह जानकारी सोमवार को नोडल अफसर एडीजी एपी अंशुमान ने रुद्रप्रयाग पुलिस के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दी। उन्होंने जिला पुलिस को बॉर्डर क्षेत्रों में सघन चेकिंग और पड़ोसी जिलों से समन्वय स्थापित करने के निर्देश भी दिए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में रुद्रप्रयाग पुलिस ने जानकारी दी कि अब तक 210 लीटर अवैध शराब बरामद की गई है। इसके अलावा असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए बीएनएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। साथ ही 95 फीसदी

लाइसेंस शस्त्रों को अब तक जमा कराया जा चुका है। एडीजी ने बताया कि विधानसभा क्षेत्र में 162 मतदान केंद्र और 173 मतदेय स्थल बनाए गए हैं। उन्होंने इसके हिसाब से ही सुरक्षा की योजना बनाने के निर्देश दिए। साथ ही पुलिस बल और अर्द्धसैनिक बलों को तैनाती व आपसी समन्वय भी समय से करने को कहा गया। चुनाव के मद्देनजर गश्त और चेकिंग पूरे निर्वाचन क्षेत्र में लगातार की जाए। साथ ही बॉर्डर क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखते हुए निकटवर्ती जनपदों से आपसी समन्वय रखा जाए। निर्वाचन के दौरान अपराध व कानून व्यवस्था को नियंत्रित रखा जाए। किसी भी घटना के होने पर जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई की जाए। इंटीलिजेंस को सतर्क करते हुए सोशल मीडिया के

विभिन्न प्लेटफॉर्म पर सतर्क दृष्टि रखी जाए। अफवाहों से कानून व्यवस्था को बाधित करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। प्रत्याशियों की सुरक्षा नियमानुसार सुनिश्चित कराई जाए। निर्वाचन ड्यूटी में नियुक्त समस्त पुलिस बल को भलि-भांति ब्रीफ कर नियुक्त किया जाए। स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा व्यवस्था राजपत्रित अधिकारी की निगरानी में भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुरूप सुनिश्चित की जाए। स्ट्रॉन्ग रूम, बैरियर आदि महत्वपूर्ण स्थानों की सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाए। पर्वतीय जनपद होने के कारण आपदा संभावित क्षेत्रों में बनाए गए मतदान केंद्रों पर पहले से ही तैयारी रखते हुए एसडीआरएफ के जवानों को निर्देशित किया जाए।

फांसी के फंदे पर लटके मिले पति पत्नी के शव

रानीखेत (उद संवाददाता)। रानीखेत के ताड़ीखेत ब्लॉक के खुशालकोट गांव में नवविवाहित दंपति संदिग्ध हालात में फंदे से लटके मिले। घटना की सूचना मिलते ही राजस्व पुलिस मौके पर पहुंच गई। दोनों के शवों को फंदे से उतारकर पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय रानीखेत भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत की असल वजह का पता चल सकेगा। मंगलवार दोपहर खुशालकोट निवासी देवकी देवी घर लौटीं और उन्होंने कमरे का दरवाजा बंद पाया। काफी देर तक आवाज लगाने के बावजूद कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर उन्होंने दरवाजा खोला तो उनके होश उड़ गए। बेटा कमल सिंह नेगी (31) और उसकी पत्नी सरिता नेगी (24) फंदे पर लटके थे। देवकी के शोर मचाने पर गांव

वाले मौके पर पहुंचे। उन्होंने घटना की जानकारी राजस्व उप निरीक्षक कुबेर सिंह मेहरा को दी। सूचना मिलने पर राजस्व पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शवों को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय रानीखेत भेजा। राजस्व पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहां पर नायब तहसीलदार प्रियंका, राजस्व उपनिरीक्षक कुंदन लाल, कुबेर सिंह मेहरा, कुंदन कनवाल, प्रदीप बिजलवाण, कुमार सोनू, राजेन्द्र जोशी आदि मौजूद रहे। नैनीताल जिले के सिमलखा की सरिता जलाल का विवाह

अल्मोड़ा के ताड़ीखेत ब्लॉक के खुशालकोट निवासी कमल सिंह नेगी से 29 अप्रैल 2024 को हुआ था। सात जन्मों का साथ महज साढ़े छह महीनों में ही छूट गया। दिवाली पर कमल सिंह लुधियाना से घर लौटा था। वह एक होटल में नौकरी करता था, जबकि सरिता गृहिणी थी। जवान बेटे और बहू की मौत से परिवार में कोहराम मचा है। देवकी देवी बेटे और बहू को बार-बार पुकार कर बेहोश हो जा रही है। नायब तहसीलदार रानीखेत प्रियंका घनसेला ने बताया कि नवविवाहित जोड़े के संदिग्ध परिस्थितियों में फांसी के फंदे पर लटके होने की सूचना मिली थी। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ है इसकी जांच की जा रही है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए उप जिला चिकित्सालय रानीखेत भेजा गया है।



S. No.		PARTICULARS	STANDALONE		CONSOLIDATED		
			Quarter Ended	Half Year Ended	Quarter Ended	Half Year Ended	
		Un-Audited 30-Sep-24	Un-Audited 30-Sep-23	Un-Audited 30-Sep-24	Un-Audited 30-Sep-23	Un-Audited 30-Sep-24	
1	Total income from operations	11498.25	10908.65	22453.07	13016.69	10908.65	24334.72
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	226.08	392.78	554.09	-330.14	392.78	-638.82
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	226.08	392.78	554.09	-330.14	392.78	-638.82
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	161.03	289.18	412.41	-299.90	289.18	-550.36
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	179.73	-11.04	446.84	-281.19	278.14	-515.93
6	Paid-up Equity Share Capital (Face Value of Re.1/- each)	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50	1986.50
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve)	-	-	-	-	-	-
8	Earnings Per Share (Face value of Re.10/- each) - (for continuing and discontinued operations) (not annualised) (amount in Rs.)						
	Basic :	0.81	1.46	2.08	-1.51	1.46	-2.77
	Diluted:	0.81	1.46	2.08	-1.51	1.46	-2.77

Notes:

- The above Standalone & Consolidated un-audited financial results of Archidply Industries Limited ("the Company") have been reviewed by the Audit Committee and taken on record by the Board of Directors of the Company at their meeting held on November 12, 2024. Limited Review Report of these results as required under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015, has been completed by the statutory auditors of the Company.
- The above unaudited financial results of the company have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards (INDAS) prescribed under section 133 of the Companies Act, 2013 read with Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended.
- Previous year/period figures has been regrouped/reclassified, wherever necessary to conform to those current year classification.
- The full format of the results is available on the websites of the stock exchanges (www.bseindia.com & www.nseindia.com) and on the company website (www.archidply.com).

For and on behalf of the Board of Directors
Sd/-
Rajiv Daga
Managing Director
DIN: 01412917

Place : New Delhi
Date : November 12, 2024

कांग्रेस विधायकों ने केदारनाथ में किया जनसंपर्क

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश ने केदारनाथ विधानसभा में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज रावत के समर्थन में कई क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान और नुककड़ सभा कर प्रचार प्रसार किया। विधायक हृदयेश ने ग्राम दुर्गाधर, बोरा गांव, जागतोली समेत विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर स्थानीय लोगों से मुलाकात की और उन्हें कांग्रेस की नीतियों और विकास योजनाओं की जानकारी दी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस ही एकमात्र पार्टी है जो क्षेत्र के समग्र विकास और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि वे मनोज रावत को भारी मतों से विजय दिलाकर क्षेत्र के विकास की दिशा में

कदम बढ़ाएं। सुमित हृदयेश ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वर्तमान सरकार ने आम जनता की



समस्याओं को अनदेखा किया है और विकास कार्यों में बाधा उत्पन्न की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जीत से

केदारनाथ क्षेत्र में विकास की गति को नया आयाम मिलेगा और जन समस्याओं का समाधान सुनिश्चित

होगा। विधायक सुमित हृदयेश के साथ उप नेता प्रतिपक्ष भुवन कापडू, बद्रीनाथ विधायक लखपत सिंह बुटोला सहित बड़ी संख्या में स्थानीय कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित रहे जिन्होंने इस जनसंपर्क अभियान को सफल बनाने में योगदान दिया।

सर्दियों के मौसम में बढ़ रहा तापमान

देहरादून। मौसम के बदले पैटर्न का असर इस साल की सर्दियों पर भी देखने को मिल रहा है। मानसून विदाई के बाद बारिश न होने और पश्चिमी हवाओं के न चलने से तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। उत्तराखंड में मंगलवार को छह साल बाद एक बार फिर नवंबर का पारा चढ़ा तो दिन के साथ रात के तापमान में भी बढ़ोतरी दर्ज की गई। आंकड़ों पर नजर डाले तो दून का अधिकतम तापमान सामान्य से दो डिग्री इजाफे के साथ 28.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया जबकि रात का न्यूनतम तापमान भी तीन डिग्री बढ़ोतरी के साथ 14.8 डिग्री पर रहा। इससे पहले इस दिन साल 2018 में अधिकतम तापमान 28 डिग्री रहा था। तापमान में इस तरह की बढ़ोतरी लगभग प्रदेश के सभी जिलों में देखने को मिली। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि पोस्ट मानसून की बारिश न होने के चलते सामान्य तापमान में इजाफा दर्ज किया जा रहा है। यही वजह है कि मैदानी इलाकों में सुबह-शाम धुंध परेशान कर रही है। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 16 नवंबर तक प्रदेश भर में मौसम शुष्क रहेगा। केंद्र के निदेशक बिक्रम सिंह ने बताया, 17 नवंबर के बाद प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इस बारिश का असर पूरे प्रदेश के तापमान पर देखने को मिलेगा। साथ धुंध से भी राहत मिलेगी।

अवैध शराब के साथ महिला गिरफ्तार

हल्द्वानी (उद संवाददाता)। बनभूलपुरा थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान एक महिला शराब तस्कर को 10 लीटर शराब के साथ गिरफ्तार किया है जिसे कार्रवाई करते हुए न्यायालय में पेश किया है बनभूलपुरा थाना प्रभारी नीरज बगुनी अपने पुलिस कर्मियों के साथ जवाहर नगर क्षेत्र में गश्त करते-करते गोला नदी की ओर चल दिए जहां एक महिला हाथ में जरकिन लेकर पुलिस को देखकर गली में घुस गई सड़ने होने पर पुलिस ने उसे पकड़ लिया महिला ने बताया कि जरकिन में शराब है और वह यहां मजदूरों को बेचकर अपना पेट पालती है। महिला ने पुलिस को अपना नाम सीता देवी पत्नी बाबूराम वार्ड नंबर 15 जवाहर नगर बताया पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय में पेश किया है।

किशोरी को बंधक बनाकर किया रेप

हिंदूवादी संगठनों के लोगों के साथ थाने पहुंचे परिजन

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। ट्रांजिट कैम्प थाना क्षेत्र में एक किशोरी को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा अगवा कर उसे कमरे में बंधक बनाकर रेप करने का मामला प्रकाश में आया है। घटना के विरोध में हिंदूवादी संगठनों के दर्जनों लोगों ने परिजनों के साथ थाने के समक्ष प्रदर्शन कर आरोपी व उसके परिजनों के विरुद्ध कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार ट्रांजिट कैम्प निवासी परिजन हिंदूवादी संगठनों के लोगों के साथ थाने पहुंचे जहां उन्होंने पुलिस को तहरीर सौंपकर बताया कि 11 नवम्बर की सायं

उनकी 15 वर्षीय पुत्री घर के समीप ही मैदान में गई थी। लेकिन उसके बाद से घर वापस नहीं लौटी। जिसके बाद उसकी सभी संभावित स्थानों पर खोजबीन की गई। इसी दौरान पता चला कि दूसरे समुदाय का एक युवक उसे जबरन अपने साथ ले गया है। युवक का पता लगाने के बाद वह उसके घर गये। जहां देखा उनकी बेटी को युवक के परिजनों ने एक कमरे में बंधक बना कर रखा हुआ था। उनका आरोप है कि युवक के परिजनों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी। आरोप है कि युवक उनकी बेटी से शादी करने की जिद पर अडा हुआ था। परिजनों का कहना है कि वह किसी

तरह अपनी पुत्री को वहां से घर वापस ले आये। पूछने पर पुत्री ने बताया आरोपी युवक ने उसके साथ कई बार जबरन शारीरिक सम्बंध बनाये। प्रदर्शकारी हिंदूवादी संगठनों के कार्यकर्ताओं ने कहा कि आरोपी युवक और उसके परिजनों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाये। उन्होंने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं होने से आये दिन बेटियों के साथ दुर्घटना की घटनाएं बढ़ रही हैं। पुलिस ने तहरीर लेकर जांच शुरू कर दी और आशवासन दिया कि मामले में निश्चित रूप से कार्रवाई की जायेगी। इस दौरान सुल्तान सिंह, जोगेन्द्र सिंह, शुभम पाल व विक्की आदि मौजूद रहे।

पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप बने अखिल भारतीय कोली समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। अखिल भारतीय कोली समाज के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रसेन कोली ने बताया कि अखिल कोली समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए कोली भवन नई दिल्ली में चुनाव प्रक्रिया में संपन्न हुई। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सांसद एवं सोलन निवासी वीरेंद्र कश्यप को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया के दौरान हरियाणा प्रदेश के नानक चंद्र को पूर्व सांसद वीरेंद्र कश्यप जी ने 33 मतों से पराजित किया। इस दौरान सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्षों, राष्ट्रीय कार्यकारिणी पदाधिकारी सहित संगठन के आजीवन सदस्यो एवं संगठन के फाउंडेशन मेंबरों ने अपने-अपने मतों का प्रयोग किया। वीरेंद्र कश्यप के अध्यक्ष बनने पर उत्तराखंड इकाई द्वारा उनका स्वागत कर समस्त पदाधिकारी के द्वारा उनको शुभकामनाएं प्रेषित की। अखिल भारतीय कोली समाज रजिस्टर्ड

नई दिल्ली उत्तराखंड प्रदेश के अध्यक्ष चंद्रसेन कोली कहा कि पूर्व सांसद एवं नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र



कश्यप के नेतृत्व में समस्त भारत वर्ष में कोली समाज मजबूत होगा। वीरेंद्र कश्यप एक अनुभवी वरिष्ठ समाज सेवी है। समाज को एक कुशल नेतृत्व

देने में सक्षम है। निश्चित ही कोली समाज नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र कश्यप के अनुभव एवं योग्यताओं का लाभ उठायेगा। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर प्रदेश उपाध्यक्ष दर्शन कोली, डॉ हरिओम कोली, ज्ञान सिंह कोली, भागीरथ कोली, सुखपाल कोली, प्रदेश कोषाध्यक्ष छोटेलाल कोली, प्रदेश महामंत्री मुकेश कोली, प्रदेश मंत्री बीरबल सिंह मंडांगी, राम अवतार कोली, वासुदेव कोली, दिगंबर सिंह कोली, कमल कोली, मीडिया प्रभारी अमित कोली, एवं अखिल भारतीय कोली समाज महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष श्रीमती सविता देवी कोली सहित ने हर्ष व्यक्त करते हुए शुभकामनाएं दी हैं।

डीएम ने देर रात खुलने वाले पब और बार में मारा छापा

गुप्त रूप से मानीटरिंग की। टीम ने किशननगर चौक के पास ब्रिस्टल बार को रात 11:22 बजे खुला पाया, जिसके बाद उप जिलाधिकारी ने बार पर ताला



लगाकर चाबी अपने कब्जे में ले ली और बार संचालक के खिलाफ कार्यवाही की। रियोन टुकड़ा पब पर भी कार्रवाई की गई, जहां प्रबंधन द्वारा निर्धारित समय के बाद शराब परोसी जा रही थी।

राल्फ पब पर भी इसी प्रकार की कार्यवाही की गई, जहां समय सीमा के बाद शराब परोसी जा रही थी। डीएम ने निर्देश दिए हैं कि ऐसी छापेमारी नियमित

रूप से जारी रहेगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले पब और बार पर भारी जुर्माना, सीलिंग और लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने उपजिलाधिकारियों को

निर्देशित किया है कि अगर शहर में कोई भी बार या पब रात 11 बजे के बाद संचालित पाया जाता है, तो उसके खिलाफ कठोर कदम उठाए जाएं और पेनल्टी के साथ-साथ वैधानिक रूप से लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की जाए।

मण्डी समिति के सचिव को मातृ शोक

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। बगवाड़ा मंडी समिति सचिव विश्वजीत सिंह देव की माता गीता देवी का 62 वर्ष की आयु में निधन हो गया। मूल रूप से लोहाघाट की रहने वाली गीता देवी लंबे समय से अस्वस्थ चल रही थी जिन्होंने देहरादून में अंतिम सांस ली। उनके निधन पर मंडी समिति के समस्त कर्मियों एवं विभागीय अधिकारियों गहरा दुःख व्यक्त किया है। शोक संवेदना प्रकट करने वालों में पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल, पूर्व मंडी समिति अध्यक्ष केके दास, पूर्व पालिका अध्यक्ष मीना शर्मा, मंडी समिति सचिव एमसी जोशी मंडी समिति सचिव योगेश तिवारी, मंडी इंस्पेक्टर महेंद्र सिंह डंगवाल आदि ने शोक जताया।

सेवा अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग ने किया सील, 50 हजार का जुर्माना

काशीपुर (उद संवाददाता)। मुरादाबाद रोड पर लंबे समय से बगैर रजिस्ट्रेशन के चल रहे सेवा अस्पताल को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापेमारी के दौरान सीज कर दिया। अस्पताल पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के निर्देश पर नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ अमरजीत साहनी तथा पुलिस ने सेवा अस्पताल पर छापे मारा। इस दौरान वहाँ अस्पताल प्रबंधन की ओर से अस्पताल के रजिस्ट्रेशन के कागज पूरे नहीं कराये गये थे और बगैर रजिस्ट्रेशन के अस्पताल में मरीजों का इलाज जारी था। डॉ अमरजीत साहनी ने बताया कि जब उन्होंने टीम के साथ अस्पताल पर छापे मारा तो यह खुलासा हुआ। अस्पताल की ओर से आन लाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तो की गई थी लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए अस्पताल की ओर से आगे कोई कार्रवाई पूर्ण नहीं की गई। जिससे अस्पताल अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था। इस दौरान वहाँ दो मरीजों का उपचार चल रहा था। जिन चिकित्सकों ने उपचार किया उन पर बिना रजिस्ट्रेशन वाले अस्पताल में मरीजों का उपचार करने पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। डॉ अमरजीत साहनी ने बताया कि फिलहाल पुलिस की मौजूदगी में अस्पताल को सीज किया गया है। साथ ही अस्पताल से मिले प्रपत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भेजे गए हैं। जब तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है तब तक अस्पताल सीज रहेगा।

खेलकुंभ प्रतियोगिता के दूसरे दिन कई बच्चों ने दिखाया दम

मौजूदगी में 600 मीटर दौड़, लम्बी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, कबड्डी, खो-खो, वॉलीबॉल प्रतियोगिता तथा अंडर-17 में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मी तथा 3000 मीटर, कबड्डी खो-खो, वॉलीबॉल, लम्बी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, भाला फेंक आदि प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन शिक्षक नेता खिलानंद अटवाल जी द्वारा किया। उन्होंने अपने संचालन में बालिकाओं को खेल के प्रति प्रोत्साहित किया। खेल प्रतियोगिताओं को संपन्न कराने के लिए लेखा प्रमुख निमाई चन्द्र माझी, मोहित राणा, जितेंद्र सिंह राणा, खजान सिंह, सत्य प्रकाश सिंह, पवन कुमार, लीला रौतेला, नीलम रानी, रंजु उपाध्याय, नीतू चौहान, मनदीप कौर, फकीर सिंह, नरेश सिंह, साहिल आदि शिक्षक उपस्थित रहे।

क्या अंग्रेजी दवाईयां आपका रोग ठीक करने में नाकाम हैं तो मिलें-

विजय आयुर्वेद क्लीनिक

पंचकर्म सेन्टर

निम्न रोगों के इलाज में 16 वर्षों का अनुभव:-

पार्किंसन्स, अल्जाइमर, मानसिक विकार, निःसन्तान स्त्री-पुरुष की सभी यिकित्सायें, ट्यूब ब्लॉक, सिस्ट, कीटाणु की कमी आदि। डिस्क प्रोलेप्स सर्वाइकल, गर्ठिया, घुटने का दर्द, फिडनी रोग (डायलिसिस से पहले)

लीवर सिरोसिस, हैपेटाइटिस B&C, Fatty Liver प्रोस्टेट रोग

असाध्य एवं लाइलाज रोगियों की चिकित्सा शुद्ध आयुर्वेदिक पद्धति द्वारा की जाती है।

DR. VIJAY PRAKASH MISHRA
M.D. (Ayurveda)
Mob.: 9410897970

DR. ASHWINI MISHRA
M.D. (Ayurveda)
स्त्री एवं त्वचा रोग

मिलने का समय : प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक (शुक्रवार अवकाश)

होटल राजश्री के सामने, गली नं० 2, डॉक्टर्स कालोनी डी 1 डी 2 सिविल लाइन, रुद्रपुर (अधम सिंह नगर) उत्तराखण्ड

खेलकुंभ प्रतियोगिता के दूसरे दिन कई बच्चों ने दिखाया दम

नानकमत्ता (उद संवाददाता)। राजकीय कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालय धुसरा के खेल मैदान में न्याय पंचायत स्तरीय खेल महाकुंभ के द्वितीय दिन



बालिका वर्ग की खेल प्रतियोगिताओं का शुभारंभ मुख्य अतिथि नृपेंद्र उपाध्याय प्रथिनाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक

विद्यालय बलखेड़ा, खेल संयोजक नृपेंद्र कुमार चौहान, मेजबान विद्यालय के प्रथिनाध्यापक कुंवर सिंह राणा द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। खेल संयोजक नृपेंद्र



कुमार चौहान व सूरज सक्सेना द्वारा अपने संबोधन में बच्चों का मार्गदर्शन करते हुए बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु खेल जरूरी

अंडर 17 के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी। न्याय पंचायत स्तर पर अंडर - 14 में 60



अंडर 17 के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी। न्याय पंचायत स्तर पर अंडर - 14 में 60

अंडर 17 के अंतर्गत होने वाली प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी दी। न्याय पंचायत स्तर पर अंडर - 14 में 60

नौगांव डामटा पहुंचने पर सीएम धामी का जोरदार स्वागत

टीकरा टॉप में खेल मैदान व हेलीपैड का निर्माण कराने की घोषणा, ग्रामीणों के साथ रवाई-जौनसार-जौनपुर क्षेत्र के पारंपरिक लोक नृत्य में भी हिस्सा लिया

देहरादून (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने गत दिवस उत्तरकाशी जिले के डामटा में आयोजित यमुना घाटी क्रीडा एवं सांस्कृतिक विकास समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने आयोजन के लिए 5 लाख की धनराशि देने के साथ ही मुगरसंती पट्टी के पैसट गांव के आराध्य रुद्रेश्वर महाराज के डांडा देवराणा मेला को राजकीय मेले के कैलेंडर में सम्मिलित करने और टीकरा टॉप में खेल मैदान व हेलीपैड का निर्माण कराने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डामटा क्षेत्र में पॉलीटेक्निक संस्थान की आवश्यकता का आकलन कर उचित निर्णय लिया जाएगा। इस दौरान आयोजित समारोह में हजारों की संख्या में जुटे स्थानीय लोगों ने पारंपरिक ढंग से मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने मेले में जुटे ग्रामीणों के साथ रवाई-जौनसार-जौनपुर क्षेत्र के पारंपरिक लोक नृत्य में भी हिस्सा लिया।



को प्रोत्साहित करने के लिए इस समारोह के जरिए महत्वपूर्ण एवं सराहनीय प्रयास किया है। राज्य सरकार इस तरह के प्रयासों को निरंतर प्रोत्साहन

देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार खेल-कूद व सांस्कृतिक गतिविधियों को प्रोत्साहित करने तथा राज्य की समृद्ध परंपराओं के संरक्षण व संवर्द्धन पर विशेष ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा

क की धनराशि का अलग से प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड को 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करने का गौरव मिला है। इससे राज्य में खेल गतिविधियों को नई ऊंचाई

सौंदर्य और आध्यात्मिक महत्व के चलते इस क्षेत्र में पर्यटन एवं तीर्थाटन के विकास की विपुल संभावनाएं हैं। जिन्हें साकार करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने यमुना घाटी क्षेत्र

सरकार विशेष प्रयास कर रही है। केन्द्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी से वार्ता के बाद डामटा से आगे यमुनोत्री मार्ग के चौड़ीकरण कार्य हेतु टेंडर की प्रक्रिया संपन्न करा ली गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यमुना घाटी क्षेत्र में रेलवे लाइन के निर्माण के बावत भी केन्द्र सरकार से आग्रह किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा राज्य स्थापना दिवस पर राज्य के विकास एवं बेहतरी के लिए जारी संदेश के अनुरूप राज्य को देश का श्रेष्ठ व विकसित राज्य बनाने के लिए राज्य सरकार जन सहयोग से प्रतिबद्धता से काम करेगी। इस अवसर पर पुरोला विधायक दुर्गेश्वर लाल, जिलाधिकारी डॉ. मेहरबान सिंह बिष्ट, पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, मुख्य विकास अधीक्षक एएसएल सेमवाल, अपर जिलाधिकारी देवानंद शर्मा, उप जिलाधिकारी बृजेश कुमार तिवारी, पुलिस उपाधीक्षक सुरेन्द्र सिंह भंडारी, मेला समिति के अध्यक्ष बचन सिंह चौहान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष नारायण सिंह चौहान, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येन्द्र राणा, चमन सिंह चौहान, सुलोचना गौड़, दयाराम धर्माचार्य सहित अनेक जन-प्रतिनिधि एवं मेला आयोजन समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे।

कोश्यारी ने युवाओं से की रोजगार करने की अपील

लोहाघाट (उद संवाददाता)। पूर्व राज्यपाल एवं उत्तराखण्ड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी मंगलवार दोपहर को लोहाघाट पहुंचे। जहां भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सतीश चंद्र पांडे के आवास पर पूर्व सीएम का जोरदार स्वागत किया गया। लोहाघाट पहुंचे पूर्व सीएम कोश्यारी ने वहां के भाजपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पूर्व मुख्यमंत्री कोश्यारी ने कहा 24 वर्षों में उत्तराखण्ड में भरपूर विकास हुआ है। उत्तराखण्ड तेजी से विकास की ओर अग्रसर है। उन्होंने पलायन रोकने के लिए युवाओं से अधिक से अधिक रोजगार से



जुड़ने की अपील की। उन्होंने कहा आज पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेई की प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से उत्तराखण्ड के अधिकतर गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखण्ड से

योजना से उत्तराखण्ड के अधिकतर गांव सड़क से जुड़ चुके हैं। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा सरकार उत्तराखण्ड से

पलायन को रोकने के लिए ग्रामीण युवाओं को कृषि, बागवानी, मौन, बकरी पालन से जोड़ने के लिए कई योजनाएं संचालित कर रही है। युवाओं को अधिक से अधिक स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है। वो खुद भी राज्यपाल पद छोड़ इस कार्य में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के दिशा-निर्देश पर प्रदेश के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है आगे आने वाला दशक उत्तराखण्ड का होगा जो सच साबित होने जा रहा है।

के धार्मिक क्षेत्रों को विकसित कर श्रीकृष्ण यमुना तीर्थ सर्किट विकसित करने का बीड़ा उठाया है। जिसके तहत यमुना नदी के तटों पर विभिन्न प्रकार के घाट बनाकर विशेष आरती की व्यवस्थाएं की जाएंगी। इस तरह के प्रयासों से इस क्षेत्र में आजीविका के नये अवसर पैदा होंगे और आर्थिकी को भी संबल मिलेगा। उन्होंने कहा कि चार धाम ऑल वेदर रोड के तहत इस क्षेत्र की सड़कों के चौड़ीकरण के लिए राज्य

देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट ने मुंबई में मनाया उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस

रुद्रपुर/मुम्बई (उद संवाददाता)। देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट ने ऐरोली नवी मुंबई में उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर उत्तराखण्ड समाज, महाराष्ट्रीयन समाज, राजस्थानी समाज,

उत्तर भारतीय समाज, पंजाबी समाज एवं अन्य समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक गणेश नाईक, डॉ. संजीव नाईक, कल्पना नाईक उपस्थित रहे। अतिथियों ने लक्ष्मी हार पहनाकर

तथा शॉल एवं उत्तराखण्ड टोपी से स्वागत किया गया। कार्यक्रम का आयोजन एवं आनंद सभी अनंत सुतार, अशोक पाटिल ने लिया। इस अवसर पर दिनेश पारिख, संध्या सावंत, राजेश माधवी दीपक पाटिल, संदीप नामवाद, महेंद्र सुखदेव,

सिंघवी, देवभूमि चैरिटेबल ट्रस्ट के ट्रस्टी दीवानसिंह सौनजी, दीपा सौनजी, दिलवरसिंह रावत, गायत्री बिष्टजी, नलिनी मेहता, नीलम गोदियाल, सुनीता जोशी, अनुपमा पांडे, दीपा भट्ट, वसंत भट्ट, नीलम सौनजी, निर्मला यादव,

निर्मला पांडे, हेम पांडे, योगेश चमोली, बहादुर सिंह मेहता, नरेश शर्मा, महावीर सिंह रावत, पूरण सिंह सौनण, फकीर सिंह बिष्ट, पूरण चंद्र पांडे, पंडित पुनित रतूड़ी, मोहन सिंह कठायतजी, बिष्णु दत्त जोशी, नरेंद्र बहुगुणा, भोपाल सिंह

मनराल, हीरा बल्लव जोशी, मोहन सिंह सौनण, भरत सिंह गोसाई, प्रेम सिंह रावत, कृष्णा धपोला, सुरेश उपाध्याय, वसंत धपोला, मिलाप सिंह रावत, श्री गंगोत्री मित्र मंडल ऐरोली एवं आदिशक्ति भजन मंडली ऐरोली उपस्थित रहे।



गुरु माँ एडवांस्ड डेन्टल क्लीनिक

WORLD-CLASS DENTAL CARE NOW IN YOUR CITY

रूट कैनाल विशेषज्ञ

डेन्टल इम्प्लांट

टेढ़े-मेढ़े दांतों का इलाज

डॉ. ऑचल शिंगरा

बी.डी.एस., एम.डी.एस., एंडोडोन्टिस्ट
रूट कैनाल स्पेशलिस्ट, कॉस्मेटिक डेन्टिस्ट
सर्टिफाइड एस्थेटिक डेन्टिस्ट

Guru Maa Advanced Dental Care "A Multi Speciality Dental Clinic"

१ प्लॉट नं 1, सिविल लाइन्स, रुद्रपुर | ☎ 7452880018, 05944-245666

ना दौलत से, ना पद प्रतिष्ठा से जिंदादिली से बनाई पहचान

■ जगदीश चन्द्र

रुद्रपुर। धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, ऊंची जाति इन के बिना भी कुछ लोग समाज में अपनी अलग पहचान बना लेते हैं, ऐसी ही शख्सियत थे रम्पुरा के लाडले बंटी कोली। 30 वर्षीय बंटी कोली के निधन से पूरा शहर स्तब्ध है। सड़क हादसे में बंटी कोली की दुखद मृत्यु के बाद रम्पुरा के कई घरों में चूल्हे नहीं जले। मंगलवार को जिसने भी बंटी कोली के निधन की खबर सुनी वह अवाक हो गया। बंटी कोली की शव यात्रा में जिस तरह हजारों का सैलाब उमड़ा उसने यह साबित कर दिया कि धन दौलत और पद प्रतिष्ठा के बिना भी लोगों के दिलों में जगह बनाई जा सकती है। मलिन बस्ती में पले बड़े दलित समाज के युवक बंटी कोली के पास न तो अच्छी शिक्षा थी, ना पैसा था और न ही कोई पद प्रतिष्ठा थी। इतनी कम उम्र में बंटी कोली वह सब तो हासिल नहीं कर सका जिसकी अकसर हर इंसान को चाहत होती है, लेकिन उसने अपने व्यवहार और

बंटी कोली की मौत से शोक में डूबा रम्पुरा, शव यात्रा में उमड़ा हजारों का जन सैलाब

जिंदादिली से जो पहचान बनाई वह बड़े बड़े पदों पर रहकर या दुनिया भर की दौलत हासिल करके भी लोग हासिल नहीं कर पाते। बड़े बुजुर्ग अकसर कहा करते हैं कि दुनिया में किसी शख्स ने क्या कमाया इसका पता उसकी अंतिम

भीड़ को देखकर साबित हो गया। बंटी कोली की शव यात्रा में रम्पुरा ही नहीं बल्कि रुद्रपुर शहर और दूर दराज से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। आलम यह था कि भीड़ के चलते शमशान घाट का परिसर छोटा पड़ गया। आम और खास

के परिवार का हिस्सा बन चुके थे। उनके मन में ना पैसे का लोभ था और न ही किसी पद प्रतिष्ठा की चाहत। इतने वर्षों तक टुकराल के साथ तन मन से समर्पित रहकर बंटी कोली ने कभी भी कुछ नहीं चाहा। टुकराल का पूरा परिवार उन्हें

को निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। हर सुख दुख में वह टुकराल और उनके परिवार के साथ खड़े नजर आये। टुकराल के भाजपा छोड़ने के बाद जब उनके कई करीबियों ने भी बुरे वक्त में उनका साथ छोड़ दिया तब ऐसे वक्त में

कम नहीं थी। रिश्ते निभाने और लोगों से व्यवहार बनाने की जो कला उनमें थी वह अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों में भी नहीं हो पाती। बंटी कोली के व्यवहार और उनकी वफादारी का ही जादू था कि उनके निधन की खबर सुनने के बाद राजकुमार टुकराल और उनके भाई संजय टुकराल के साथ ही टुकराल की पत्नी कोमल टुकराल भी रात को ही घटना स्थल की ओर दौड़ पड़े। टुकराल की बुजुर्ग माताजी दर्शना टुकराल ने खबर सुनी तो उनका रो रोकर बुरा हाल हो गया उनकी तबियत खराब होने के कारण उन्हें डाक्टर ने बैड रेस्ट की सलाह दी थी इसके बावजूद वह रात को ही घटना स्थल पर जाने की जिद करने लगी। किसी तरह उन्हें वहां जाने से रोका गया। बाद में जब बंटी का शव रम्पुरा लाया गया तो वहां पहुंची टुकराल की माताजी के साथ साथ दोनों बेटियां भी फूट फूटकर रो पड़ीं। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जो बंटी कोली कल तक उनके हर छोड़े बड़े काम में उनके साथ खड़ा नजर आता था आज वो दुनिया में नहीं है। उन्हें रोते उनकी समझ और पढ़े लिखे लोगों से बिलखते देख हर आंख नम हो गयी।



पूर्व विधायक टुकराल के साथ बंटी कोली का फाईल फोटो



शव यात्रा में उमड़ा जनसैलाब

शव यात्रा में लोगों की भीड़ से चलता है। बंटी कोली ने इतनी कम उम्र में दुनिया में रहकर क्या हासिल किया यह उनके निधन के बाद शव यात्रा में उमड़ी

हर कोई बंटी के जाने से दुखी था विभिन्न राजनैतिक सामाजिक धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उन्हें नम आंखों से अंतिम विदाई दी। उनके निधन से हर आंख नम थी, बंटी के अचानक चले जाने का गम हर किसी को था, किसी को उनकी आकस्मिक मौत पर यकीन नहीं हो रहा था। रम्पुरा बस्ती से शायद ही किसी शख्सियत ने अपने व्यवहार से लोगों के दिलों में इतनी जगह बनाई हो। पिछले करीब डेढ़ दशक से बंटी कोली पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल

अपने परिवार का सदस्य की तरह मानता था। बंटी की हर जरूरत को टुकराल और उनका परिवार पूरा करता आ रहा था। दरअसल बंटी कोली के पिता भाजपा नेता स्व. घासीराम टुकराल के मित्र थे और टुकराल के सियासी सफर में घासीराम का बड़ा योगदान रहा था। उनके निधन के पश्चात टुकराल हमेशा इस परिवार के साथ खड़े रहे। बचपन से ही टुकराल की दोनों बेटियां बंटी कोली को राखी बांधती आ रही थी। बंटी कोली ने भी रिश्ते और वफादारी

भी बंटी कोली ने टुकराल का साथ नहीं छोड़ा। घर हो या बाहर टुकराल के परिवार की हर जिम्मेदारी को बंटी कोली एक बेटे की तरह निभा रहे थे। गरीब परिवार से होने के कारण बंटी कोली ज्यादा पढ़ लिख तो नहीं पाये लेकिन उनकी समझ और पढ़े लिखे लोगों से

ईमानदारी और वफादारी की मिसाल थे बंटी कोली

रुद्रपुर। बंटी कोली सरल स्वभाव के साथ साथ ईमानदारी और वफादारी की मिसाल भी थे। पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल का कोई बेटा नहीं है इसीलिए उन्होंने बचपन से बंटी कोली को अपने बेटे की तरह पाला पोषा। बंटी के सिर से पिता का साया बचपन में ही उठ चुका था। उसकी हर जरूरत में पूर्व विधायक टुकराल उसके साथ खड़े रहे। इसके बदले में बंटी कोली ने टुकराल और उनके परिवार के लिए जो किया वो किसी मिसाल से कम नहीं। आम तौर पर किसी बड़े नेता के साथ लोग अपने स्वार्थ के लिए जुड़ते हैं, अपना मतलब निकालते हैं लेकिन बंटी कोली ऐसा शख्स था जिसका कोई लालच नहीं था। राजकुमार टुकराल के विधायक रहते हुए बंटी कोली चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं चाहा। अपने काम के बदले बंटी कोली ने टुकराल से कभी सैलरी तक नहीं ली। उनकी जो भी छोटी मोटी जरूरत होती वह बेहिचक पारिवारिक सदस्य की तरह टुकराल से मांग लेते। एलायंस कालोनी में टुकराल की कोठी बनने के दौरान पूरा हिसाब किताब बंटी कोली ही देखते थे, इसके अलावा विधानसभा के तीन चुनावों के दौरान भी बंटी कोली ने चुनाव प्रबंधन से लेकर पैसे के हिसाब किताब तक की बड़ी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। पिछले दिनों आयोजित हुए कवि सम्मेलन के आयोजन में भी बंटी कोली पद के पीछे रहकर दिन रात जुटे रहे।

काजल की कोठरी में भी बेदाग

रुद्रपुर। बंटी कोली जिस बस्ती में रहते थे वह नशे का गढ़ मानी जाती है, रम्पुरा बस्ती में बंटी कोली की पीढ़ी के तमाम युवा आज नशे की गिरफ्त में हैं। ऐसे कई युवाओं के साथ बंटी कोली का मिलना जुलना तो था लेकिन उन्होंने कभी नशे को छुआ नहीं। शायद यह राजकुमार टुकराल की संगत का ही असर था, जिसने उन्हें नशे से दूर रखा। गुटका तंबाकू, शराब जैसे हर तरह के नशे से दूर रहकर बंटी युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत थे, उन्होंने यह साबित कर दिया था कि बुराई के बीच रहकर भी अच्छा इंसान बनना मुश्किल नहीं है। बंटी कोली ने अपने कई साथियों को भी नशे से दूर करने का भी काम किया था। बंटी कोली की निस्वार्थ सेवा को भी आज लोग उनके जाने के बाद बार बार याद कर रहे हैं। जरूरत पड़ने पर वह हर किसी की मदद के लिए आधी रात को भी तैयार रहते थे। यही वजह है कि उनके निधन के बाद सोशल मीडिया पर भी श्रद्धांजलि देने की बाढ़ आ गयी। हजारों लोगों ने सोशल मीडिया के जरिये भी उन्हें अपनी श्रद्धांजलि दी।

टुकराल की बात मान लेता तो बच जाती जान

रुद्रपुर। यूपी के शाहबाद में मौत बंटी कोली का इंतजार कर रही थी, इसीलिए उन्होंने टुकराल के साथ जागेश्वर जाने से मना कर दिया और दोस्तों के साथ बारात के लिए निकल पड़े। पिछले डेढ़ दशक में बंटी कोली ने शायद ही टुकराल की कोई बात ना मानी हो। दिन हो या रात, तपती गर्मी हो या कड़ाके की ठण्ड हर परिस्थिति में टुकराल के आदेश को मानने वाले बंटी कोली ने इस बार टुकराल की बात ना मानकर बारात में जाने की जिद पकड़ ली। दरअसल घटना से एक दिन पहले रविवार को पूर्व विधायक राजकुमार टुकराल अपने करीबियों के साथ जागेश्वर धाम दर्शन के लिए जा रहे थे, टुकराल ने बंटी से भी साथ चलने को कहा। बंटी जागेश्वर जाता तो शादी में नहीं जा पाता, इसलिए उसने जागेश्वर जाने से मना कर दिया। सोमवार शाम करीब सवा पांच बजे टुकराल जब जागेश्वर से वापस रुद्रपुर लौटे तो उन्होंने सबसे पहला फोन बंटी को ही किया लेकिन बंटी ने टुकराल को भी शादी में जाने की बात नहीं बतायी। टुकराल के साथ जागेश्वर जाने की बात अगर बंटी ने मान ली होती तो शायद बंटी आज हम सबके बीच होता।

अंतर्विद्यालयी शब्द कीर्तन प्रतियोगिता में दशमेश स्कूल अव्वल

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। जेसीज पब्लिक स्कूल में गुरुपर्व के अवसर पर अंतर्विद्यालयी गुरुबाणी शब्द प्रतियोगिता के आठवें संस्करण का आयोजन किया गया। विद्यालय के महासचिव सुरजीत सिंह ग्रोवर के प्रयास एवं मार्गदर्शन से रुद्रपुर में विगत वर्षों की भाँति इस वर्ष भी प्रतियोगिता का सफल आयोजन हुआ। इस अवसर पर कुलविंदर सिंह अध्यक्ष गुरुद्वारा रकाबगंज साहिब, नई दिल्ली, एस हरबंस सिंह चुघ सेवानिवृत्त आईएएस ऑफिसर गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, जसवंत सिंह सेवानिवृत्त अधिकारी सहित विभिन्न गणमान्य अतिथियों ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। कार्यक्रम के प्रारंभ में विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अतिथियों एवं प्रतिभागियों तथा समस्त गणमान्य लोगों तथा शिक्षकों का स्वागत करते हुए गुरु की महिमा पर प्रकाश डाला। इस कार्यक्रम में कोलंबस पब्लिक स्कूल रुद्रपुर, ब्लूमिंग डेल्स मॉडर्न स्कूल रुद्रपुर, माउंट लिटेरा स्कूल रुद्रपुर, एसएस पब्लिक स्कूल गदरपुर,



अमेनिटी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर, माँस प्राइड स्कूल रुद्रपुर, गुरु नानक अकादमी नानकमता, दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर, क्रिम्सन वर्ल्ड स्कूल रुद्रपुर, गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी, गुरु नानक स्कूल नानकपुरी, द ऑक्सफोर्ड अकादमी रुद्रपुर, श्री दशमेश स्कूल बाजपुर, द्वितीय स्थान अमेनिटी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर तथा खालसा अकादमी नवाबगंज, एसएम एस दत्ता नोजगे पब्लिक स्कूल खटीमा, जीनियस ग्लोबल अकादमी बाजपुर,

गुरुकुल किच्छा, जेसीज पब्लिक स्कूल रुद्रपुर सहित विभिन्न विद्यालयों ने प्रतिभाग किया। भाई हरजिंदर सिंह, भाई रणजीत सिंह (उत्तम नगर) और भाई गुरविंदर सिंह निर्णायक मंडल के सदस्य थे। प्रतियोगिता में प्रथम स्थान दशमेश स्कूल बाजपुर, द्वितीय स्थान अमेनिटी पब्लिक स्कूल रुद्रपुर तथा तृतीय स्थान संयुक्त रूप से गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल हल्द्वानी एवं माँस प्राइड स्कूल रुद्रपुर ने प्राप्त किया।

प्रतियोगिता में सहभागिता करने वाले सभी प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया गया। सरदार कुलविंदर सिंह ने सभी को गुरुपर्व की बधाई देते हुए कार्यक्रम की सराहना की। विद्यालय के महासचिव सुरजीत सिंह ग्रोवर ने कहा आज के बदलते परिवेश में मूल्यपरक शिक्षा की आवश्यकता को समझते हुए विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति एवं संस्कारों से परिचित कराना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि 'जेसीज' विद्यार्थियों को एक अच्छा इंसान बनाने के साथ-साथ सभी धर्मों के प्रति सम्मान की भावना बनाए रखने के लिए प्रेरित करता है। इस प्रकार के कार्यक्रम विद्यालयों में सकारात्मक सोच एवं नैतिक मूल्यों का समावेश करते हैं। कार्यक्रम के समापन पर सभी अतिथियों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। शब्द गायन प्रतियोगिता में बेहतरीन प्रस्तुति देने के बावजूद भी जेसीज पब्लिक स्कूल रुद्रपुर एवं दिल्ली पब्लिक स्कूल रुद्रपुर ने आयोजक होने के कारण स्वयं को निर्णायक मंडल की प्रतियोगिता के अंतर्गत नहीं रखा।

एसएसपी ने जनता दरबार में सुनी समस्याएं

काशीपुर (उद संवाददाता)। एसएसपी मणिकांत मिश्र ने काशीपुर में आमजन और पीड़ितों की समस्याओं के निस्तारण हेतु जनता दरबार लगाया गया। काशीपुर क्षेत्र में जनता दरबार लगने का काशीपुर की जनता ने खुल कर स्वागत किया। जनता दरबार में आये लोगों द्वारा पारिवारिक विवाद, जमीनी विवाद, क्षेत्रीय समस्याएं एवं नशे से संबंधित समस्याओं को एसएसपी के समक्ष रखा। जनता द्वारा बताई



समस्याओं को उनके द्वारा गम्भीरता पूर्वक सुनकर उनके द्वारा निराकरण हेतु संबंधित थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया। जन सुनवाई के दौरान काशीपुर सर्किल के सभी थाना प्रभारी/थानाध्यक्ष सहित प्रतिस्तर निरीक्षक, रीडर, स्टेशन और अन्य अधिकारी/कर्मचारी मौजूद रहे। जनता दरबार में कुल 32 फरियादी आए जिसमें कुछ शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया। शेष अन्य शिकायतों का निस्तारण करने हेतु एसएसपी द्वारा संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया।

दबंगों ने घर में घुसकर महिला को पीटा

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। कृष्णा कालोनी ट्रांजिट कैम्प में कुछ दबंगों ने एक घर में घुसकर न सिर्फ महिला को बेरहमी से पीटाई की वरन घर में तोड़ फोड़ कर महिला को मकान खाली करने की धमकी भी दी। महिला की तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज रपट में कृष्णा कालोनी निवासी कुसुम ने कहा है कि 11 नवम्बर की सायं पति की गैर मौजूदगी में यहीं के निवासी मोनू, ललिता व मिंती मंडल अपने साथ नौ अज्ञात महिलाओं व पुरुषों के साथ उसके घर के भीतर आ घुसे और सामान में तोड़ फोड़ करने लगे। जब उसने उन्हें ऐसा करने से रोका तो उन्होंने उससे मारपीट कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। कुसुम का आरोप है कि मोनू ने कमरे में रखा उसका मोबाईल उठा लिया। सभी उस पर मकान खाली करने का दबाव बना रहे हैं और ऐसा न करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दे रहे हैं। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।



मुख्यमंत्री आवास में भैलो पूजन कर मनाया इगास पर्व

लोक संस्कृति, लोक परंपराएं, पहाड़ी परिधान हमारे राज्य की विशिष्ट पहचान : धामी

देहरादून। (उद संवाददाता)। मुख्यमंत्री आवास में लोकपर्व इगास बेहद सादगी से मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना एवं सुंदरकांड पाठ कर प्रदेश में सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। उन्होंने इगास पर्व पर भैलो पूजन कर भैलो भी खेला एवं ढोल दमरू भी बजाया। मुख्यमंत्री ने समस्त प्रदेशवासियों को इगास की बधाई देते हुए कहा कि हमें अपनी लोक परम्पराओं एवं लोक संस्कृति को आगे बढ़ाना है। उन्होंने कहा कि आज पूरा राज्य धूमधाम से इगास मना रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी सभी प्रदेशवासियों को इगास की शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री जी का उत्तराखण्ड से विशेष लगाव ही है जो वो स्वयं इगास पर्व में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने हमेशा उत्तराखण्ड के लोक पर्वों और यहां की संस्कृति को बढ़ावा दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति एवं लोक परम्परा देवभूमि की पहचान है। इगास का पर्व हमारे लिए बेहद विशेष है। इस लोक पर्व को

जन-जन तक पहुंचाने के लिए बीते कुछ साल से सार्वजनिक अवकाश की परम्परा भी शुरू की गई है। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुए प्रवासी उत्तराखण्डी सम्मलेन में भी प्रवासी उत्तराखण्डियों से भी उन्होंने अपने गांव में जाकर लोक पर्व को मनाने का आग्रह किया था। उन्होंने कहा कि राज्य स्थापना दिवस पर प्रध



नमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने संबोधन में उत्तराखण्ड वासियों से अपनी बोली भाषा का संरक्षण करने एवं गांव से जुड़ने का आग्रह किया था। इगास पर्व पर हमने अपने गांव से जुड़ने एवं भाषा और लोक

पर्वों के संरक्षण का संकल्प लेना है। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल, केंद्रीय राज्य मंत्री श्री अजय टप्पा, पद्मश्री श्री प्रीतम भरतवाण एवं अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने ऑफिसर्स क्लब



ओएनजीसी, देहरादून में बूढ़ी दीपावली (इगास) के अवसर पर हिमगिरि ओहो उमंगोत्सव कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने भैलो भी खेला। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी को इगास की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हिमगिरि सोसायटी निरंतर

समाज सेवा कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोक संस्कृति, लोक परंपराएं, पहाड़ी परिधान हमारे राज्य की विशिष्ट पहचान और आत्मा हैं। यह हमारे गौरवशाली इतिहास का प्रतीक हैं। बूढ़ी दीपावली (इगास) राज्य की आस्था का



प्रतीक भी है। हमारी आने वाली पीढ़ी तक लोक संस्कृति को पहुंचाना हम सभी का दायित्व है। हमारी परंपराओं के पीछे बड़ी और शानदार कहानियां हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में भगवान श्री राम के विजय का समाचार देर से पहुंचा था, इसलिए कई इलाकों में दीपावली 11

दिन बाद बनाई जाती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज के दिन से हमारे सभी शुभ कार्य प्रारंभ हो जाते हैं। उन्होंने जनता से अपने-अपने गांव में जाकर लोक पर्व मनाने और इसे अन्य लोगों तक भी पहुंचाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा



त्योहारों के अवसर पर उत्तराखण्ड प्रवासी अपने गांव का रुख कर रहे हैं। उन्होंने उत्तराखण्ड प्रवासियों से भी घरों में लौटकर लोक पर्वों को मनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रिवर्स माइग्रेशन की दिशा में जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। इस

वर्ष हमने प्रवासी उत्तराखण्ड भाई बहनों के साथ राज्य स्थापना से पहले सम्मेलन करने का निर्णय लिया, जिसके सकारात्मक परिणाम आए हैं। यह दिवस हम सभी को एक साथ मिलने का अवसर है। आगे भी प्रवासी सम्मेलन दिवस इसी तरह मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्यों की सूची में उत्तराखण्ड प्रथम आया है। राज्य सरकार ने यूसीसी विधेयक पारित करके नया इतिहास बनाया है। बीते 3 वर्षों में रिकॉर्ड 18,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। धर्मांतरण कानून लागू किया है। साथ ही प्रदेश में दंगारोधी कानून भी लागू किया गया है, जिसके तहत दंगा करने वाले से ही पाई पाई की वसूली की जाएगी। राज्य सरकार एक सशक्त भू कानून भी लागू करेगी। इस अवसर पर विधायक श्री सुरेश चौहान, विधायक श्री संजय डोभाल, श्रीमती सुषमा रावत, श्री गोपाल राणा, निदेशक खेल श्री प्रशांत आर्य, श्री आर. जे काव्य एवं अन्य लोग मौजूद रहे।

धूमधाम से मनाया सौरभ बहुगुणा का जन्मदिन

नशे के खिलाफ सितारगंज के युवक, युवतियों ने लगाई दौड़

सितारगंज (उद संवाददाता)। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के जन्मदिन के अवसर पर यूथ अगेंस्ट ड्रग्स रन के खिलाफ सितारगंज का युवाओं ने सड़कों पर दौड़ लगाई। चार किमी

शपथ ग्रहण कराई। कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा के जन्मदिन के अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल, वरिष्ठ भाजपा नेता सुखदेव सिंह, शिवकुमार भित्तल आदि ने केक काटा।



बालक, बालिका की दौड़ में जिसमें दीपक कुमार, अशिका राय ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। शिवा मंडल, असीमा राणा ने दूसरा स्थान। इस दौरान युवाओं को आयोजक मंडल ने नशे के खिलाफ

इस दौरान भाजपा नेता सुखदेव सिंह ने यूथ अगेंस्ट ड्रग्स रन प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। जिसमें क्षेत्र से हजारों की संख्या में युवक युवतियों ने भाग लिया। चार किलोमीटर दौड़ में

युवक, युवती नशे के खिलाफ संकल्प के साथ दौड़ें। भाजपा नेता सतेंद्र दिवाकर ने बताया कि दौड़ प्रतियोगिता में दीपक कुमार ने प्रथम स्थान, शक्तिफार्म के सेवा मंडल ने दूसरा, महिला वर्ग में शक्तिफार्म की अशिका राय ने पहला, मजरा की असीमा राणा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया है। विजेता विजेता खिलाड़ियों को नगद पुरस्कार के साथ ही प्राइस भी वितरित किया गया है। इधर भाजपा जिला अध्यक्ष कमल जिंदल सुखदेव सिंह ने अपर पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार कत्याल के साथ नशे के खिलाफ सरकार के अभियान में आमजन से बढ़-चढ़कर सहयोग की अपील की और इस दौरान शपथ भी ग्रहण कराई। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री प्रतिनिधि उमाशंकर दुबे, भाजपा नेता दयानंद तिवारी परवेज पटौदी, नरेश ठाकुर तरसेम सिंह, शाहनवाज हुसैन आदि लोग मौजूद थे।

आंगनबाड़ी वर्करों ने दोबारा सर्वे ना करने का किया ऐलान

गुरदपुर (उद संवाददाता)। बुधवार को ब्लॉक परिसर में दोबारा सर्वे ना करने का ऐलान करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरने पर बैठ गईं। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उन्हें 15 अक्टूबर को सर्वे की ट्रेनिंग दी गई थी उसी ट्रेनिंग के हिसाब से उन्होंने सर्वे पूरा कर दिया है अब दूसरा सर्वे उनके द्वारा नहीं किया जाएगा उन्होंने अपनी समस्या से संबंधित ज्ञापन भी खंड विकास अधिकारी कार्यालय में दिया।



आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा बुधवार को ब्लॉक परिसर में एक बैठक का आयोजन किया गया जिसमें दर्जनों आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने सहभागिता ली बीएलओ राध 1 ने बताया कि उनकी विशेष समस्या यह है कि ग्राम सभा का चुनाव होने वाला है

ब्लॉक स्तर पर वीडियो साहब द्वारा सर्वे का कार्य आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को दिया था और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 15 अक्टूबर को सर्वे की ट्रेनिंग भी दी गई थी इस ट्रेनिंग के आधार पर पर आंगनबाड़ी

पाएंगी सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने हुंकार करते हुए दोबारा सर्वे ना करने का ऐलान कर दिया और धरने पर बैठ गई उन्होंने अपनी समस्या से संबंधित एक ज्ञापन भी खंड विकास अधिकारी के नाम



कार्यकर्ताओं ने घर-घर जाकर सर्वे के कार्यों को पूरा कर दिया अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अब फिर से नियम बदलकर दोबारा सर्वे करने के लिए उन्हें कहा जा रहा है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक साथ इतने कम कैसे कर

से जारी कर कार्यालय में दिया, इस दौरान चंचल, रीना, सरस्वती, गीता, सुजाता रानी, किरण कुमारी, ज्योति रानी, उपमा वटला, सोमा रानी, हरभजन कौर, बिमला रानी, आशा रानी, सुनीता देवी, दीपा देवी सहित दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रही।

पेज एक का शेष...

बुल्डोजर एक्शन पर... पर ध्वस्त करती है कि उस पर किसी अपराध का आरोप है तो यह संविधान कानून का उल्लंघन है। अधिकारियों को सत्ता का दुरुपयोग करने पर बख्शा नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि किसी भी संपत्ति का विध्वंस तब तक नहीं किया जा सकता, जब तक उसके मालिक को पंद्रह दिन पहले नोटिस न दिया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह नोटिस मालिक को पंजीकृत डाक के जरिए से भेजा जाएगा और इसे निर्माण की बाहरी दीवार पर भी चिपकाया जाएगा। नोटिस में अवैध निर्माण की प्रकृति, उल्लंघन का विवरण और विध्वंस के कारण बताए जाएंगे। इसके अलावा, विध्वंस की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी की जाएगी और अगर इन दिशा-निर्देशों का उल्लंघन होता है तो यह कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक नागरिक के लिए घर का निर्माण वर्षों की कड़ी मेहनत, सपनों और उम्मीदों की परिणति है। घर सुरक्षा और भविष्य की साझा उम्मीद का प्रतीक है और अगर इसे ही छीन लिया जाता है, तो अधिकारियों को संतुष्ट करना चाहिए कि यही एकमात्र तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्यपालिका (सरकारी अधिकारी) किसी व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा सकती और न ही वह जज बन सकती है, जो किसी आरोपी की संपत्ति तोड़ने पर फैसला करे। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी व्यक्ति को अपराध का दोषी ठहराने के बाद उसके घर को तोड़ा जाता है, तो यह भी गलत है, क्योंकि कार्यपालिका का ऐसा कदम उठाना अवैध होगा और कार्यपालिका अपने हाथों में कानून ले रही होगी। कोर्ट ने कहा कि आवास का अधिकार एक मौलिक अधिकार है और किसी निर्दोष व्यक्ति को इस अधिकार से वंचित करना पूरी तरह

सांगठनिक कमजोरी... प्रदेश तक स्तर तक बेहद व्यवस्थित रूप से काम करने का अभ्यस्त है। विशेष रूप से भाजपा के जमीनी कार्यकर्ताओं को अपने मतदाताओं की पहचान कर उन्हें मतदान केंद्र तक पहुंचाने में महारत हासिल है और भाजपा अपने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं की इसी खूबी के चलते कई हारे हुए चुनाव जीतने में सफल रही है। नतीजतन केदारनाथ की राजनीतिक लड़ाई पर नजदीकी नजर रखने वाले सियासी जानकार यह आशंका जाहिर करने लगे हैं कि कांग्रेस की जमीनी स्तर की सांगठनिक कमियां कहीं उसे केदारनाथ उपचुनाव में भारी न पड़ जाए। हैरानी की बात तो यह है कि कांग्रेस की संगठन संबंधी कमजोरी को लेकर अक्सर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं और पिछले कई चुनाव में हार के बाद कमजोर पार्टी संगठन को कांग्रेस के पराजय की एक प्रमुख वजह बताया जाता रहा है, बावजूद इसके कांग्रेस ने केदारनाथ उपचुनाव के पहले संगठन को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत

नहीं महसूस की। लिहाजा अब राजनीतिक विश्लेषकों की नजर इस बात पर है कि कांग्रेस अपने क्षेत्रीय क्षत्रपों के सहारे कहां तक किला लड़ा पाती है।

गुटबाजी के चलते... कि सम्पूर्ण क्षेत्र के चहुंमुखी विकास के लिए वह हमेशा प्रयत्नशील रहे हैं। साथ ही पात्र लोगों को केन्द्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी अधिकारियों को निर्देशित करते रहे हैं। श्री भट्ट ने कहा कि रूद्रपुर की जनता को शीघ्र ही कई अन्य सौगातें भी मिलने वाली हैं। उन्होंने कहा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यहां के विधायक शिव अरोरा के प्रयासों से क्षेत्र का निरंतर विकास हो रहा है। अपने सम्बोधन में विधायक शिव अरोरा ने कहा कि अंडर पास के लिए स्थानीय लोग पिछले कई वर्षों से निरंतर संघर्ष कर रहे थे। उनका संघर्ष रंग लाया और सांसद अजय भट्ट के प्रयासों से आज अंडर पास का निर्माण कार्य शुरू हो रहा है और आगामी 6 माह में अंडर पास से लोग आवागमन करने लगे। उन्होंने बताया कि शहर में केंद्रीय विद्यालय का निर्माण भी शीघ्र शुरू हो जायेगा। उन्होंने कहा भाजपा जनता से जो वायदे करती है उसे अवश्य पूरा करती है। अंडर पास के दुबारा शिलान्यास को लेकर आज शहर में चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। कार्यक्रम में भाजपा के कई नेताओं की गैर मौजूदगी भी चर्चा का विषय बनी रही। वहीं मंच पर कांग्रेस के निवर्तमान पार्षद मोहन खेड़ा की मौजूदगी भी चर्चा का विषय रही। इस दौरान कार्यक्रम में विकास शर्मा, जसविन्दर सिंह खरबंदा, उत्तम दत्ता, बबलू सागर, सुरेश कोली, रश्मि रस्तोगी, फरजाना बेगम, ज्ञान सिंह, तरुण दत्ता, हरीश भट्ट आदि समेत तमाम लोग मौजूद रहे।

सीएम धामी ने... में श्रद्धालु व स्थानीय लोगों की सुविधाओं के उन्नयन के लिए संचालित विभिन्न विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर अधिकारियों से विस्तृत जानकारी ली। इसके उपरांत तीर्थ पुरोहितों, बद्रिनाथ धाम व्यापार संघ एवं स्थानीय लोगों ने सकुशल यात्रा संचालित करने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में हमारी डबल इंजन सरकार देवभूमि के समग्र विकास के साथ ही सनातन संस्कृति के वैभव की पुनर्स्थापना हेतु सकल्पित होकर कार्य कर रही है। सीएम ने स्थानीय दुकानदारों से भी भेंट कर हालचाल जाना। सीएम धामी ने कहा कि इस बार की यात्रा अपने अंतिम चरण में है। सभी ने बहुत संतोष व्यक्त किया है, यात्रा बहुत अच्छी तरह संपन्न हुई है। कपाट बंद होने में अभी चार दिन का समय बाकी है, फिर भी भगवान बद्रि विशाल के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां आ रहे हैं।

संदिग्ध हालातों में.. बजे ड्यूटी के लिए घर से निकल गया। घर पर उसकी पत्नी पूनम प्रजापति और दो बच्चे थे, जबकि बेटा अजय कुमार काम सीखने के लिए

रोडवेज बस खराब होने से यात्रियों की फजीहत

रूद्रपुर (उद संवाददाता)। मुरादाबाद से हल्द्वानी जा रही रोडवेज बस रूद्रपुर आकर इंदिरा चौक पर खराब हो गयी जिससे यात्रियों को भारी फजीहत उठानी पड़ी। इस दौरान यात्रियों ने चालक परिचालक को जमकर खरी खोटी सुनाई। जानकारी के मुताबिक मुरादाबाद मंडल पीतलनगरी डिपो की बस संख्या यूपी 77 एएन 2081 मेरठ से मुरादाबाद होते हुए हल्द्वानी जा रही थी। रूद्रपुर में इंदिरा चौक पर बस अचानक खराब हो गई। बस में 31 यात्री सवार थे। बस खराब होने पर यात्रियों को फजी उठानी पड़ी जिस पर उन्होंने बस चालक और परिचालक को खरी खोटी सुनाई।

दुकान गया था। इसी बीच पत्नी दो बच्चों को लेकर सुबह साढ़े आठ बजे मंदिर चली गयी और वहां से सवा दस बजे जब घर वापस आई तो अजय घर पर फंदे पर लटका मिला। उसे हॉस्पिटल ले गये जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इधर सूचना मिलने पर पुलिस ने अस्पताल से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक के पिता का कहना है कि अजय कुमार की मानसिक स्थिति पहले से ही ठीक नहीं थी जिसके चलते वह पूर्व में भी तीन बार आत्म हत्या का प्रयास कर चुका था। मृतक के पिता ने जिलाधिकारी को पत्र लिखकर पुत्र का पोस्टमार्टम ना कराने का आग्रह किया है।

संदिग्ध हालातों में विवाहिता... गयी है, इसकी जानकारी के लिए जब सुमन कौर के ससुराल में फोन किया तो किसी ने फोन नहीं उठाया। सुबह पता चला कि सुमन कौर की मौत हो चुकी है, उसके शव को जिला अस्पताल लाया गया है। जब जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां सुमन कौर का शव पड़ा था लेकिन ससुराल वाले फरार थे। मृतक की बहन ने सुमन कौर की हत्या का आरोप लगाया है। मामले में परिजन पुलिस को तहरीर देने की तैयारी कर रहे थे।

संस्थापक-स्व० हरनामदास सुखीजा एवं स्व० तिलकराज सुखीजा
स्वामित्वाधिकारी, प्रकाशक एवं मुद्रक परमपाल सुखीजा द्वारा उत्तरांचल दर्पण पब्लिकेशन्स,
श्याम टाकीज रोड, रूद्रपुर, उधमसिंहनगर (उत्तराखण्ड) से मुद्रित एवं प्रकाशित
सम्पादक- परमपाल सुखीजा
आरएनआई नं.: UTTHIN/2002/8732 समस्त विवाद रूद्रपुर न्यायालय के अधीन होंगे।
E-mail-darpan.rdr@gmail.com, www.uttaranchaldarpan.in
फोन-245886(O)245701(Fax), 9897427585, 9897427586(Mob.)

अमर इंटरनेशनल स्कूल में दो दिवसीय संस्कृत प्रतियोगिता शुरू

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। उत्तराखंड संस्कृत अकादमी हरिद्वार द्वारा जनपदीय संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। इस वर्ष भी जनपद उधम सिंह नगर की संस्कृत छात्र प्रतियोगिता का दो दिवसीय

शिक्षा अधिकारी कुंवर सिंह ने अपने संबोधन में संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति के उत्थान और प्रचार प्रसार की अच्छी शुरुआत बताया। उन्होंने देवप्रयाग के संस्कृत संस्थान की भी जानकारी छात्रों को दी जो संस्कृत को बढ़ावा को

प्रधानाचार्य एनएल गंगवार ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने जानकारी दी कि आज कनिष्ठ वर्ग की 6 प्रतियोगिताएं हैं जिसमें संस्कृत नाटक, संस्कृति नृत्य, संस्कृत समूह गान, आशु भाषण, वाद विवाद, श्लोक को उच्चारण शामिल

संस्कृत प्रतियोगिता के संयोजक आमोद सक्सेना प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज चुटकी देवरिया ने भी सभी प्रतिभागियों को आशीर्वाद प्रदान किया। इस अवसर पर सहसंयोजक संजय कुमार श्रीवास्तव, अमर



आयोजन आज से अमर इंटरनेशनल स्कूल भूरानी में प्रारंभ किया गया। आज पहले दिन कुंवर सिंह रावत मुख्य शिक्षा अधिकारी उधम सिंह नगर ने दीप प्रज्वलित कर प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉ सुरेश गांधी प्रबंधक अमर इंटरनेशनल स्कूल भूरानी ने की। मुख्य

महत्व दे रही है। उन्होंने छात्रों को आशीर्वाद देते हुए कहा कि सभी अच्छी से अच्छी प्रस्तुति दें जिससे जनपद का नाम प्रदेश में भी रौशन हो। उन्होंने प्रतियोगिता के निर्णायकों से निवेदन किया कि जनपद से अच्छी टीम को चयनित करके प्रदेश स्तर पर भेजें। प्रतियोगिता के शुभारंभ पर विद्यालय के

होंगी। जिले के सातों ब्लॉकों से चयनित प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली टीम इसमें प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने बताया कि कल 14 नवंबर को वरिष्ठ वर्ग की प्रतियोगिताएं संपन्न होंगी। कार्यक्रम का संचालन सुभाष मिश्रा प्रवक्ता कृष्ण मर्चेंट इंटर कॉलेज किच्छा ने किया। जनपद स्तरीय

इंटरनेशनल की कोऑर्डिनेटर भावना जोशी, भगवत प्रसाद, डॉक्टर अंकित पांडे, श्रीमती कल्पना यादव, श्रीमती कमला पांडे, हरीश आर्य, चंद्रपाल सिंह चौहान, ललिता प्रसाद, डॉ. देवेश गंगवार, डॉ. सुबोध कुमार शर्मा, श्रीमती सुमन गंगवार और सभी ब्लॉकों के संस्कृत संयोजक उपस्थित रहे।

कैंडल मार्च निकालकर मार्चूला बस हादसे के मृतकों को दी श्रद्धांजलि

गदरपुर (उद संवाददाता)। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय गदरपुर द्वारा अल्मोड़ा में हुए बस हादसे के मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च आवास विकास सेंटर से बाजार से होते हुए पुरानी

मंडी से वापसी आवास विकास सेंटर पर समाप्त हुआ। जिसमें गदरपुर सेंटर की मुख्य संचालिका ब्रह्माकुमारी ज्योति दीदी और ब्रह्माकुमारी गायत्री बहन ब्रह्माकुमारी ज्योति मनचंदा, ब्रह्माकुमार मदन हुडिया, ब्रह्माकुमार राहुल, ब्रह्माकुमार राजकुमार, ब्रह्माकुमार सुरेंद्र छाबड़ा, संतोष गुप्ता, गुट्टू पपनेजा, गौतम पपनेजा, मनोज गुंवर, सीमा चौधरी, अंजू भुड्डी, मंजू गुंवर,



रूबी कम्बोज, बीना छाबड़ा, काशीपुर से ब्रह्माकुमारी चंद्रावती, ब्रह्माकुमारी लक्ष्मी, ब्रह्माकुमारी दिया, ब्रह्म कुमार गुट्टू, महेशपुरा से ब्रह्माकुमार गुरमीत, दानपुर से ब्रह्माकुमार गुरमीतभरत, रुद्रपुर से ब्रह्माकुमार वासु, रंजीत और बिनती इत्यादि ने भाग लिया।

टुरना ने किया नए प्रतिष्ठान का शुभारंभ

नानकमत्ता (उद संवाददाता)। नगर के गुरुद्वारा रोड पर नव प्रतिष्ठान मेडिकल स्टोर का नगर पंचायत के निवर्तमान अध्यक्ष प्रेम सिंह टुरना द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया, शिव मेडिकल शुभारंभ के अवसर पर उद्घाटन करते हुए



श्री टुरना ने कहा कि क्षेत्र में युवाओं का मेडिकल के प्रति रुझान होने से जहां उनका रोजगार मिलेगा वहीं क्षेत्र के लोगों को पढ़े-लिखे शिक्षित युवाओं से दवाइयां लेने में भी विश्वास बना रहेगा, व्यापार मंडल के पूर्व महामंत्री तरसेम सिंह ने कहा कि क्षेत्र के लोगों को अच्छी दवाइयां उपलब्ध हो, इसके लिए शिक्षित युवाओं को रोजगार से जुड़ना चाहिए, इस मौके पर प्रतिष्ठान शिव विश्वास, जोगिंदर सिंह पाली समेत आसपास के तमाम दुकानदार मौजूद थे।

नशे के खिलाफ 28 को निकाली जाएगी पैदल यात्रा

गदरपुर (उद संवाददाता)। समाज में बढ़ते नशे को देखते हुए नशे के खिलाफ क्षेत्रीय विधायक अरविंद पांडे ने बीते दिनों चक्की मोड से लेकर दिनेशपुर तक पैदल यात्रा निकाली थी जिसमें भारी संख्या में क्षेत्रीय लोक शामिल हुए थे। इसी क्रम में 28 नवंबर को सकैनिया से गदरपुर तक पैदल यात्रा निकाली जायेगी जिसकी तैयारियों को लेकर किया गया बैठक का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुरजीत सिंह सोनू के आवास पर भाजपा युवा मोर्चा के सह प्रभारी अतुल पांडे के नेतृत्व में आयोजित बैठक में क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। इस



दौरान जनप्रतिनिधियों को पैदल यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गईं। अतुल पांडे ने बताया कि 28 नवंबर को सुबह 10 बजे सकैनिया से गदरपुर तक नशे के खिलाफ पैदल यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने बताया कि समाज में नशा एक अभिशाप है और युवा पीढ़ी नशे के कारण बर्बाद हो रही है। इसलिए क्षेत्रीय जनता पैदल यात्रा में भारी संख्या में शामिल हो और अवैध नशे पर लगाम लग सके। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य प्रतिनिधि सुरजीत सिंह सोनू, गदरपुर वार्ड नंबर 3 के पूर्व सभा बन्धू सक्सेना, समाजसेवी पृथ्वी बजाज, बंटी भुड्डी, संतोष गुप्ता, सुरजीत सिंह जोशान, अवधेश कुमार, बलबीर चंद, हरवंश सिंह, मंजीत सिंह बिट्टा, गुरजीत सिंह, राजीव पपनेजा उर्फ गुट्टू, हरविंदर सिंह उर्फ काका, डॉ विजय कम्बोज सहित अनेको लोग बैठक में उपस्थित रहे।

खाटू श्याम जी का जन्म दिन मनाया

गूलरभोज (उद संवाददाता)। शिव मंदिर रेलवे फाटक के पास खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन बड़ी धूमधाम के साथ कंक काटकर मनाया गया इस दौरान भजन गायक गुरमेल सिंह और महंत सूरज शाह ने सुंदर-सुंदर भजन सुनाकर श्याम बाबा का गुणगान



किया। इस अवसर पर डॉ कुलदीप रघुवंशी, हरीश छाबड़ा, संजीव कुमार गुप्ता, अमित कुमार गुप्ता, हरेंद्र तोमर, पल्लवी चौधरी, राजेश कुमार, हिमांशु पांडे, लक्ष्मण गिरि, मनोज जोशी, रितिक गुप्ता, युवराज, हिमांशी, रमेश खोलिया, धीरज सिंह आदि मौजूद रहे।

बिंदुखेड़ा में धूमधाम से निकला भव्य नगर कीर्तन महिला श्रद्धालुओं का जत्था हरिद्वार के लिए रवाना

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। श्री गुरु नानक देव जी की जयंती के उपलक्ष्य में ग्राम सभा बिंदु खेड़ा में भव्य नगर कीर्तन का आयोजन किया गया। जिसमें भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्रा टिकू ने भी पहुंचकर नगर कीर्तन का स्वागत किया। इस दौरान मिश्रा के वहां पहुंचने पर श्री गुरुद्वारा कमेटी की ओर से उन्हें सरोपा पहनाकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर धीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने पूरी दुनिया में शांति का संदेश दिया और सर्व समाज को एकजुट रहने का आवाहन किया। श्री गुरु नानक देव जी महाराज ने अपने उपदेश में कहा कि इस पूरे संसार के सभी लोग एक हैं जिन्हें



सदैव मिलजुल कर रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज की युवा पीढ़ी को श्री गुरु नानक देव जी महाराज की आदर्शों को आत्मसात करना चाहिए और एक जुटता का परिचय देना

चाहिए ताकि सभी लोग मिलजुल कर आपसी भाईचारे और प्रेम का उदाहरण बन सकें। इस दौरान ग्राम प्रधान कांवल सिंह, क्षेत्र पंचायत सदस्य गुरबाज सिंह व सैकड़ों ग्राम वासी मौजूद थे।

रुद्रपुर (उद संवाददाता)। श्री शिव मंदिर ट्रस्ट मॉडल कालोनी के तत्वाधान में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हरिद्वार

गंगा स्नान हेतु महिला श्रद्धालुओं का एक जत्था संगीता बांगा के नेतृत्व में हरिद्वार के लिए रवाना हुआ। 108 श्रद्धालुओं के जत्थे में 99 महिलायें व 9 पुरुष शामिल हैं। संगीता बांगा ने बताया कि सभी यात्रियों को पूर्ण सुविधायें प्रदान करते हुए रास्ते में जलपान, फलाहार व रात्रि भोजन की व्यवस्था की गई है। रवाना हुए

श्रद्धालुओं के जत्थे में मुख्य रूप से शिव मंदिर महिला मंडल की अध्यक्ष कांता ग्रोवर, मंदिर ट्रस्ट के मुख्य पदाधिकारी



तारा चन्द अग्रवाल, सुशील के साथ ही पश्चात मंदिर में हवन एवं खिचड़ी का कार्यक्रम आयोजित किया जायेगा।

SAMSUNG

IFB

Whirlpool

DAIKIN

SONY

AMSTRAD

BOSCH

Haier

VOLTAS

dyson

JBL

SANSUI

गुरु मां

सबसे कम दाम की गारंटी

0% FINSERV

CASHBACK UPTO ₹15000/-*

WITH BAJAJ FINANCE

अब इलेक्ट्रॉनिक उपकरण

मात्र ₹890 से शुरू

DIWALI OFFER

GURU MAA ELECTRONICS 📍 रुद्रपुर - 9917161111